

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 जून 2010—ज्येष्ठ 14, शक 1932

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश

क्र. 675-डूडा-2010

मंदसौर, दिनांक 21 मई 2010

नगर पंचायत सुवासरा के वार्डों का आरक्षण

क्रमांक (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल	03	07, बालिमकी वार्ड 14, स्वामी विवेकानंद वार्ड 15, चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	-	- निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित कुल वार्ड	04	01, श्रीराम वार्ड 02, कालेश्वर वार्ड 08, महात्मागांधी वार्ड 12, भगतसिंह वार्ड
4	अनारक्षित कुल वार्ड	08	03, मारूती वार्ड 04, कुतबी वार्ड 05, सुभाष वार्ड 06, रामदेव वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
			09, महावीर वार्ड 10, टोडरमल वार्ड 11, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 13, अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	07, बाल्मिकी वार्ड 14, स्वामी विवेकानंद वार्ड
6	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	-	- निरंक
7	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	02, कालेश्वर वार्ड 12, भगतसिंह वार्ड
8	महिलाओं के लिए उक्त सरल क्रमांक (4) (5) एवं (6) के अतिरिक्त आरक्षित कुल वार्ड	04	03, मारूती वार्ड 04, कुतबी वार्ड 09, महावीर वार्ड 13, अम्बेडकर वार्ड

महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी.